



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 पौष 1936 (श0)  
(सं0 पटना 1056) पटना, शुक्रवार, 26 दिसम्बर 2014

---

परिवहन विभाग

-----  
अधिसूचना

26 दिसम्बर 2014

(अधिसूचना संख्या 6067 दिनांक 07.11.2014 का शुद्धि पत्र)

सं0 स्था0-42/94 परि0-7067—विभागीय अधिसूचना संख्या स्था0-42/94 परि0-6067 दिनांक 07.11.2014 द्वारा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उप-धारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) की द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रमांक-9 पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के सामने के स्तम्भ-3 में अध्यक्ष के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के बदले टंकण भूलवश प्रमंडलीय आयुक्त, मगध अंकित हो गया था। अतएव क्रमांक-9 पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के सामने के स्तम्भ-3 में अध्यक्ष के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर समझा जायेगा।

2. तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या स्था0-42/94 परि0-6067 दिनांक 07.11.2014 की अनुसूची के क्रमांक-9 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है -

क्रम सं.	प्राधिकार का नाम	क्षेत्र और मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यगण
9	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर	सम्पूर्ण मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री ब्रज किशोर कुमार-गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. भागीरथ प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- बड़हिया, वार्ड नं.-1(महिला कॉलेज के पास), जिला- लखीसराय

3. विभागीय अधिसूचना संख्या स्था0-42/94 परि0-6067 दिनांक 07.11.2014 की शेष सभी अनुसूची एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1056-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>